



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042025-262363
CG-DL-E-09042025-262363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]
No. 119]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/ चैत्र 18, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/ CHAITRA 18, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

शुद्धिपत्र

फा. सं. पीएलआई-04/2/2024-पीएलआई-डीओपी—ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों पर दिए जाने वाले बोनस के संबंध में दिनांक 26.11.2024 को राजपत्र में जारी अधिसूचना को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

2. डाकघर जीवन बीमा नियमावली (2011) के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि (आरपीओएलआईएफ) की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण उत्पन्न हुए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के दावों के मामले में महानिदेशक डाक सेवाएं, निम्नलिखित दर पर साधारण प्रत्यावर्तित बोनस घोषित करते हैं :-

जीवन बीमा का प्रकार	बोनस की दर
i. आजीवन बीमा (डब्ल्यूएलए)	प्रति हजार रुपए की बीमित राशि पर 60/- रु.
ii. बंदोबस्ती बीमा (ईए)	प्रति हजार रुपए की बीमित राशि पर 48/- रु.

(बाल पॉलिसी सहित)	
iii. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (एईए) (ग्राम प्रिय पॉलिसी सहित)	प्रति हजार रुपए की बीमित राशि पर 45/- रु.
iv. परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सीडब्ल्यूएलए)	आजीवन बीमा की बोनस दर लागू होगी, परंतु परिवर्तित करने की स्थिति में बंदोबस्ती बीमा की बोनस दर लागू होगी।
v. टर्मिनल बोनस	20 वर्ष या उससे अधिक की अवधि वाली आजीवन बीमा तथा बंदोबस्ती बीमा पॉलिसियों पर प्रति 10,000 रु. की बीमित राशि पर 20 रु. की दर से, 1000 रु. की अधिकतम सीमा के अधीन

3. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बोनस की उपरोक्त दरें, 01.04.2025 से लागू होंगी।
4. भावी मूल्यांकन पूरा होने तक, परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए सभी दावों के मामलों में, अनंतिम बोनस उपरोक्त दरों पर ही देय होगा।
5. बोनस राशि में शामिल 50 पैसे अथवा उससे अधिक के भाग को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

तनवीर कमर मोहम्मद, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)

भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक के समकक्ष